

आज दिनांक 12 जून, 2018 को सायं 07:00 बजे से मर्चेट्स चैम्बर के पूर्व चीफ पैट्रन स्व. डॉ० गौर हरी जी सिंघानिया के जन्मदिवस के अवसर पर सर पदमपत सिंघानिया सभागार, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम “भूले-बिसरे गीत” का आयोजन किया गया।

डॉ. सिंघानिया जी ने अपने जीवन-काल में अनेकों विद्यालय, संस्थानों तथा अस्पतालों की स्थापना किया एवं इसके साथ ही साथ स्व. डॉ. सिंघानिया जी की सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं खेलों को बढ़ावा देने में अत्यधिक योगदान दिया। डॉ० गौर हरी सिंघानिया का कानपुर वासियों तथा कानपुर से अथाह प्रेम था। अपने जीवन काल में वे कानपुर को प्रदेश व देश में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की दिशा में कार्यरत रहे।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में मर्चेट्स चैम्बर के श्री बी.के. लाहोटी डॉ. आए.एम. रोहतगी, श्री जे. के. लोहिया, ने दीप प्रज्ज्वलित किया और स्व. डॉ० गौर हरी जी सिंघानिया के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा गायन समारोह का आगाज “रघुपति राघव राजा राम” से किया गया।

मर्चेट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री बी.के. लाहोटी ने आये हुए समस्त अतिथियों एवं मीडिया कर्मियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम डॉ. गौर जी हरी सिंघानिया की वर्षगाँठ के अवसर पर आयोजित कर रहे हैं। स्व. सिंघानिया जी के जन्मदिवस के अवसर पर इस वर्ष तीन कार्यक्रम आयोजित हुए हैं जिनमें पहला: निशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर, द्वितीय: लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट एवं कॉर्पोरेट वेलनेस सत्र व तृतीय कार्यक्रम शरबत वितरण (प्रातः 11 बजे से सायं 06:00 बजे तक) व सायं भूले बिसरे गीत है।

उक्त कार्यक्रम में कानपुर के निम्नलिखित नवोदित कलाकारों द्वारा दशकों पहले प्रचलित गीतों पर प्रस्तुति दी गयी, जिनको इंदु ठाकुर, अरुण दास, अमृता मिश्रा, राकेश छाबड़ा, राम भाटिया, ने “अभी न जाओ छोड़कर, मौसम है आशिकाना, ओ सजना बरखा बहार आई, किसी की मुस्कुराहटों पर हो निशा, जाने कहाँ मेरा जिगर, पुकारता चला हूँ मैं” जैसे अन्य दशकों पहले प्रसिद्ध गीतों को गाया।

कार्यक्रम में बजाए गए वाद्य यंत्रों में श्री राजा चौधरी ने “मेन की”, श्री के.के. मिश्रा ने “ओक्टोपैड”, श्री अमित सरकार ने “की-बोर्ड” तथा श्री मनीष कुमार ने “तबला व ढोलक” गायन कलाकारों का सहयोग दिया।

डॉ. आई. एम. रोहतगी ने “ऐ दिल है मुश्किल, व जाने कहाँ मेरा जिगर” तथा डॉ. ए.एस. प्रसाद ने “पुकारता चला हूँ मैं व किसी की मुस्कुराहटें” पर वाद्य-यंत्रों पर प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्र-मुग्ध किया।

श्री स्वतंत्र सिंह ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य : श्री योगेन्द्र मोहन गुप्त, श्री योगेश अग्रवाल, श्री जुगल किशोर गर्ग, श्री बी.के. श्रिया, श्री विजय पाण्डे, श्री उमेश पाण्डे, श्री महेंद्र मोदी, सचिव, मर्चेट्स चैम्बर, डॉ.

जे.एन. गुप्ता, मर्चेट्स चेम्बर के सदस्यगण तथा कानपुर के अन्य गणमान्य नागरिक सपरिवार उपस्थित हुए तथा भूले बिसरे गीतों का आनंद लिया ।

सधन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश